

सावधान! बदायूं में बिक रहा नकली नमक

Publish Date: Fri, 21 Jan 2022 12:31 AM (IST) Author: Jagran



जेएनएन बदायूं अब तक दूध तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट व नकली उत्पादों की ही जानकारी

जेएनएन, बदायूं : अब तक दूध, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट व नकली उत्पादों की ही जानकारी थी, लेकिन अब नकली नमक का मामला भी प्रकाश में आया है। जिले में टाटा कंपनी का नकली नमक भी बेचा जा रहा है। वजीरगंज क्षेत्र में टाटा कंपनी के कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे सर्वे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम के साथ जाकर छापेमारी की गई। जिसमें नकली नमक के पैकेट बरामद हुए। इस पर कापीराइट एक्ट के तहत दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

टाटा साल्ट कंपनी के दिल्ली के थाना राजेंद्र नगर गोपाला टावर्स निवासी अजय कुमार बीते दिनों कंपनी के सर्वे के सिलसिले में बदायूं में आए थे। कुछ दुकानों पर उन्हें जानकारी मिली कि टाटा साल्ट की तरह ही दिखने वाला नमक का पैकेट बाजार में बेचा जा रहा है। उन्होंने जानकारी कि तो पता चला कि वजीरगंज का एक व्यापारी इस नमक को बेच रहा है। इस पर उन्होंने अपनी कंपनी के अन्य लोगों के साथ वजीरगंज की दुकानों में नमक के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि यह कई दुकानों में उपलब्ध है। इसके बाद गुप्त रूप से वह लोग बट्टी प्रसाद किराना स्टोर पर पहुंचे और नमक के पैकेट खरीदे तो उन्हें वही नकली नमक दिया गया। इस पर अजय कुमार ने थाने जाकर थानाध्यक्ष अवधेश सिंह सेंगर को पूरी बात बताई। इस पर थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम को कंपनी के कर्मचारियों के साथ भेजकर बट्टी प्रसाद किराना स्टोर पर छापेमारी की तो वहां से बड़ी मात्रा में टाटा साल्ट कंपनी के नकली पैकेट बरामद हुए। बिल, कागजात आदि मांगने पर वह कुछ नहीं दिखा सका। दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने उसे अपनी दुकान बताते हुए अपना नाम राजीव गुप्ता पुत्र बट्टी प्रसाद गुप्ता बताया। बरामद नमक के पैकेट पर सीरीयल नंबर, बैच नंबर आदि कुछ अंकित नहीं था। इसके बाद असली पैकेट से मिलान के लिए एक पैकेट को पुलिस ने सील कर दिया, और सभी बरामद पैकेट को थाने ले गए। थाने पहुंच कर अजय कुमार की तहरीर दी। बुधवार को इस मामले में बट्टी किराना स्टोर वजीरगंज के मालिक राजीव गुप्ता के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

कंपनी के कर्मचारियों ने आकर सूचना दी थी। इस पर उनके साथ पुलिस टीम भेज कर छापेमारी की गई। जहां से नमक के नकली पैकेट बरामद हुए। सभी को थाने लाया गया। कंपनी के कर्मचारी की तहरीर पर कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। -अवधेश सिंह सेंगर, थानाध्यक्ष, वजीरगंज

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/badaun-precaution-fake-salt-being-sold-in-badaun-22400141.html>